



PEARL
Polymers Limited

PET
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
JARS
BOTTLES

Regd. Off. : A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, India
CIN NO. : L25209DL1971PLC005535
Tel. No. : +91-11-47385300, Fax, +91-11-47480746
Email : pearl@pearlpet.net, Website: www.pearlpet.net

PPL/SD/PR/ 2020-21

01st September, 2020

| | |
|--|---|
| The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C1, G Block Bandra, Kurla Complex Bandra (East), Mumbai- 400051 (Stock Code: PEARLPOLY) | The Manager, Listing Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai-400001 (Stock Code: 523260) |
|--|---|

Sub: Submission of Newspaper Publication

**Ref: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020 as approved by the Board of Directors of the Company in its Meeting held on 31st August, 2020 in the following Newspapers:

- English Language National daily Newspaper: "Financial Express" dated September 01, 2020.
- Regional Language Daily Newspaper: "Hari Bhoomi" dated September 01, 2020.

We request you to kindly take this information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pearl Polymers Limited

**Vineet Gupta
Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As above

पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
Branch Office: Wazirpur Ashok Vihar Branch, Phase-I, Delhi-52

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of Security Interest (enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 12-03-2020 calling upon the borrower M/s Sudhir Agro Oils Pvt. Ltd. through its Directors & Guarantors Mrs. Neeru Khurana W/o Lt. Sh. Sudhir Khurana and Sh. Prem Taneja S/o Lt. Sh. G.R. Taneja, Mr. Saday Khurana S/o Lt. Sh. Sudhir Khurana S/o Smt. Kamla Khurana (Deceased), Smt. Kanta Khanna D/o Smt. Kamla Khurana (Deceased) W/o Sh. Mukesh Khanna and Ms. Sakshi Khurana D/o Lt. Sh. Sudhir Khurana S/o Smt. Kamla Khurana (Deceased) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.33,78,46,876.34 (Rs Thirty Three Crores Seventy Eight Lakhs Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Six and Paise Thirty Four only.) as on 19.08.2019 Plus Interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 29th day of August of the year 2020.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank, Wazirpur Ashok Vihar Branch, Phase-I, Delhi-52 for an amount of Rs.33,78,46,876.34 (Rs Thirty Three Crores Seventy Eight Lakhs Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Six and Paise Thirty Four only.) as on 19-08-2019 Plus Interest and other charges thereon.

The Borrower's/guarantor's/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the immovable properties

- All that part and parcel of Property bearing No. 174, Block-E, in layout plan of Rewari line, Phase-II situated in Revenue Estate of Village Basal Darapur Known as Mayapuri Industrial Area Phase-II, Delhi Measuring 418.05 Sq. Mtrs. in the name of Smt. Kamla Khurana (Deceased).
- All that part and parcel of Property bearing No. 7/19, Roop Nagar, Delhi measuring 510 Sq. Yards relinquishment deed registered vide document no. 8518 book no. 1, volume no. 1693, on pages 88 to 92 on 05-12-2005. In the name of Smt. Kamla Khurana (Deceased).
- All that part and parcel of Property bearing No. 7/19, Roop Nagar, Delhi measuring 510 Sq. Yards relinquishment deed registered vide document no. 8517 book no. 1, volume no. 1693, on pages 83 to 87 on 05-12-2005 and relinquishment deed registered vide document no. 8519 book no. 1, volume no. 1693, on pages 93 to 96 on 05-12-2005. In the name of Smt. Neeru Khurana.

Date : 31.08.2020
Place : Delhi
(Authorised Officer)
Punjab National Bank

Form No. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2002)

Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of **YAMADA JUKU EDUCATIONAL SERVICES LIMITED** (CIN: L25209DL1971PLC005535) having its Registered Office at C-585 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEW DELHI, OPPOSITE SCHOOL, DELHI-110024

AND
In the matter of **YAMADA JUKU EDUCATIONAL SERVICES LIMITED** (CIN: L25209DL1971PLC005535) having its Registered Office at C-585 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEW DELHI, OPPOSITE SCHOOL, DELHI-110024

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28th August, 2020 to enable the company to change its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaints form or cause to be returned or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Aryavastya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

C-585 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEW DELHI, OPPOSITE SCHOOL, DELHI-110024

For & on behalf of Applicant
CHIDI YAMADA
(Practising Time Director)
Date: 01.09.2020
Place: New Delhi
DIN: 07411728

IDBI BANK
IDBI BANK Ltd., NPA Management Group,
1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extension,
New Delhi-110055, 011-6608 3083, 011 6608 4897

SHOW CAUSE NOTICE
Borrower: Kajwli Ltd.
KDIL House, F-82, Shivaji Place, Rajouri Garden, New Delhi - 110027

Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for identification of Willful Defaulters as laid down by RBI Master Circular has been initiated and the Show Cause Notice issued by IDBI Bank has been returned / un served.

| Name & Address | Designation | Criteria for Willful Default |
|--|------------------------------------|---|
| Ms. Ankita Mehrotra 112/205A, Svarup Nagar Nigam, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001 | Non-Executive Independent Director | 1. Diversion of funds disbursed by Bank. 2. Siphoning off of borrowed funds. |

The above persons, if they desire, may show cause within 15 days from the date of this notice as to why they should not be declared and reported to RBI as Willful Defaulter.

Your Faithfully
(Kaveri Krishnamurthy)
Deputy General Manager

Date: 01.09.2020

DEN NETWORKS LIMITED
Regd. Office: Unit No.116, First Floor,
C Wing Bldg. No. 2 Kailas, Industrial Complex L.B.S. Marg Park Site Vikhroli(W),
Mumbai, Mumbai city, Maharashtra, India, 400079
Website: www.dennetworks.com, E-mail: investorrelations@denonline.in
Phone: +91-22-61289999,
CIN:L25209MH2007PLC344765

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY
THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The thirteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") on **Wednesday, September 23, 2020** at 04:00 P.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at: <https://jiomeet.jio.com/dennetworksagm/> or <https://meetings.kintech.com>. Members participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, August 31, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (KFin)/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.dennetworks.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin at <https://evoting.karvy.com>.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM.

Members seeking to inspect such documents can send an email to investorrelations@denonline.in.

Instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the service of KFin as the agency to provide the e-voting facility. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of KFin on the dates mentioned herein below ("**remote e-voting**").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.dennetworks.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin, at <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of Remote e-voting: 9:00 A.M. on Saturday, 19th September, 2020
End of Remote e-voting: 5:00 P.M. on Tuesday, 22nd September, 2020

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFin upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., **Wednesday, 16th September, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating email addresses:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at investorrelations@denonline.in or KFin at einward.ris@kintech.com.
- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

After due verification, the Company / KFin will forward their login credentials to their registered email address.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and KFin's website.

- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the 'Help' and 'FAQs' sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section of KFin website for e-voting: <https://evoting.karvy.com>.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries/ grievances, if any:
Shri Raj Kumar Kale, Senior Manager
Corporate Affairs Northern Region
KFin Technologies Private Limited
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad 500 032
Phone No: +9140 67162222, Toll-free No: 1800-345-4001

Date: August 31, 2020
Place: New Delhi

By order of the Board of Directors
Jatin Mahajan
Company Secretary
FCS No.: F6887

SRG HOUSING FINANCE LIMITED
321, S.M. Lodha Complex, Near Shastrji Circle, Udaipur (Raj): 313001 CIN: L65922RJ1999PLC015440
website: www.srghousing.com, email: info@srghousing.com phone no: 0294-2561882, 2412609

NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 21st Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday September 24, 2020 at 12:15 PM. through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Business as set out in the notice of the 21st AGM in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020 and all other applicable provisions of Companies Act, 2013 and SEBI Regulations. Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 were sent on 30th & 31st August 2020 only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories in accordance with aforesaid circulars. Members may note that the aforesaid documents will also be made available on the Company's website www.srghousing.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and SEBI Regulations, the Company is providing remote e-voting facility and facility of e-voting system during the AGM (collectively referred as "electronic voting") provided by NSDL.

The complete details of casting votes through electronic voting are given in the Notice of 21st AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as of closing hours of Thursday 17th September, 2020. (Cut off date).

Notice is further given that the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their rights to vote on all the resolutions listed in the Notice of AGM and has availed the facility from NSDL for e-voting and VC. Some of the important details regarding electronic voting are provided below:-

| Link for Electronic Voting and VC | www.evoting.nsdl.com |
|---|--|
| EVEN (E-voting Event Number) | 113560 |
| Cut off date for determining Entitlement of Electronic Voting | Thursday 17th September, 2020. |
| Commencement of remote e-voting | Monday, 21-09-2020, 09:00 A.M |
| End of remote e-voting | Wednesday, 23-09-2020, 05:00 P.M. |

The e-voting shall not be allowed beyond 23.09.2020 at 05:00 pm. Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred for doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of AGM and holds share on cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info@srghousing.com.

In case the Members who have not registered their email addresses please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to info@srghousing.com / evoting@nsdl.co.in.

Further Notice is given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Friday 18th September, 2020 till Thursday 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 21st Annual General Meeting of the company.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of the website www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-222-990 or Contact NSDL at 022-2499454 or e-mail evoting@nsdl.co.in. For any queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact Ms. Sunaina Nagar, Company Secretary Tel: 0294-2561882 and email info@srghousing.com at 321, S.M. Lodha Complex, Near Shastrji Circle, Udaipur.
Mr. Shiv Hari Jalan, Practicing Company Director has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

For SRG Housing Finance Limited
sd/-
Sunaina Nagar (Company Secretary) M.No: A40754

Place: Udaipur
Date: 31-08-2020

CCL INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L26940DL1991PLC044520

REGD.OFF : M-4, GUPTA TOWER, B 1/1, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033
Corp. Office : C-42, RDC, RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002
Phone: 0120-4214258 Email ID: empsec@ccl.com, Website: www.evocretindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

| Particulars | Standalone | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Quarter ended 30.06.2020 Unaudited | Quarter ended 31.03.2020 Audited | Quarter ended 30.06.2019 Unaudited | Year ended 31.03.2020 Audited |
| Total income from operations | 538.82 | 1,015.61 | 618.28 | 2,920.36 |
| Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items) | (12.26) | (46.86) | 12.57 | 218.80 |
| Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items) | (12.26) | (46.86) | 12.57 | 218.80 |
| Net profit/(loss) for the period after tax | (7.51) | (47.24) | 9.30 | 213.73 |
| Total comprehensive income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | - | - | - | - |
| Equity share capital (Face Value of Rs. 10/-) | 1,919.26 | 1,919.26 | 1,919.26 | 1,919.26 |
| Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet | - | - | - | 2,623.31 |
| Earnings per share | | | | |
| (1) Basic | (0.04) | (0.25) | 0.05 | 1.11 |
| (2) Diluted | (0.04) | (0.25) | 0.05 | 1.11 |

Note:
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.evocretindia.com.

For and behalf of Board of Directors
CCL International Limited
Sd/- Sd/-
Rama Gupta Akash Gupta
Managing Director Director
DIN : 00080613 DIN : 01940481

Date: 31st Day of August 2020
Place: New Delhi

The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.dennetworks.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin, at <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of Remote e-voting: 9:00 A.M. on Saturday, 19th September, 2020
End of Remote e-voting: 5:00 P.M. on Tuesday, 22nd September, 2020

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFin upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., **Wednesday, 16th September, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating email addresses:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at investorrelations@denonline.in or KFin at einward.ris@kintech.com.
- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

After due verification, the Company / KFin will forward their login credentials to their registered email address.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and KFin's website.

- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the 'Help' and 'FAQs' sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section of KFin website for e-voting: <https://evoting.karvy.com>.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries/ grievances, if any:
Shri Raj Kumar Kale, Senior Manager
Corporate Affairs Northern Region
KFin Technologies Private Limited
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad 500 032
Phone No: +9140 67162222, Toll-free No: 1800-345-4001

Date: August 31, 2020
Place: New Delhi

By order of the Board of Directors
Jatin Mahajan
Company Secretary
FCS No.: F6887

PEARL POLYMERS LIMITED
CIN No. L25209DL1971PLC005535
Regd. Office : A-972, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, INDIA
Tel. No. : +91-11-47385300, Fax : +91-11-47480746
Email : pearl@pearlpet.net, Web : www.pearlpet.net

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

| Sl. No. | Particulars | For quarter ended | | | |
|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 30.06.2020 (Unaudited) | 31.03.2020 (Unaudited) | 30.06.2019 (Unaudited) | 31.03.2020 (Audited) |
| 1 | Total income from operations (net) | 2,362.50 | 3,292.50 | 4,170.25 | 14,204.58 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) | (102.79) | (325.79) | (188.52) | (1,246.78) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | (102.79) | (325.79) | (188.52) | (1,246.78) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) | (102.79) | (193.89) | (188.52) | (1,114.88) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (94.76) | (164.36) | (187.22) | (1,082.76) |
| 6 | Equity Share Capital | 1,682.68 | 1,682.68 | 1,682.68 | 1,682.68 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | - | - | - | 1,775.77 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | | |
| | 1. Basic | (0.61) | (1.15) | (1.12) | (6.63) |
| | 2. Diluted | (0.61) | (1.15) | (1.12) | (6.63) |

Note:
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 is available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website: www.pearlpet.net.

For PEARL POLYMERS LIMITED
Sd/-
(Chand Sethi)
Chairman & Managing Director
DIN-0002944

Place: New Delhi
Date: 31st August, 2020

RIBA TEXTILES LIMITED
CIN:L18101DL1989PLC034528
Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office , New Delhi-110019.
E-Mail: companyaffairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com, Tel. No.: 011-26236986

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2020

| Sl. No. | Particulars | Amount in Lacs (Rs.) | | | |
|---------|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | Quarter ending as on 30/06/2020 Un-audited | Proceeding 3 months ended 31/03/2020 Audited | Quarter ended in the previous year 30/06/2019 Un-audited | Year ended 31/03/2020 Audited |
| 1 | Total income from operations | 1911.10 | 5271.95 | 3679.58 | 17772.17 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 169.24 | 81.93 | 141.75 | 866.10 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 169.24 | 81.93 | 141.75 | 866.10 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 152.24 | 41.69 | 101.75 | 673.42 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 152.24 | 41.69 | 101.75 | 673.42 |
| 6 | Equity Share Capital | 965.29 | 965.29 | 965.29 | 965.29 |
| 7 | *Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year) | NA | NA | NA | 5364.93 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted: | 1.58 1.58 | 0.43 0.43 | 1.05 1.05 | 6.98 6.98 |

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com.

By order of the Board
For RIBA TEXTILES LIMITED
Sd/-
(Ravinder Kumar Garg)
Chairman & Whole time Director
DIN:00202164

Place : Panipat
Date : 31.08.2020
Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आरंभ किए "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" TO YOU SINCE 1911
BRANCH OFFICE: VIKAS SADAN, DDA COMPOUND, INA MARKET, NEW DELHI-110023

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, the Bank issued a demand notice on the date mentioned against accounts and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Central Bank of India for the amounts and interest thereon. Details of Properties where possession had been taken is as follows:

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

| S. No. | Name of the Borrowers & Guarantors | Description of the Property Mortgaged /Charged | Date of Demand Notice | Date of Possession | Amount O/s. As Per 13(2) Notice |
|--------|---|---|-----------------------|--------------------|--|
| 1. | BORROWER: MRS. NIDHI SONI CO-BORROWER: MR. GOLDY SONI | All the part and parcel of Property consisting of Flat No.F-94, Tarangini Apartment, Third Floor, Back Side Portion, Kharsa No.87/5/2, Street No.2, Village - Palam, Mahavir Enclave, New Delhi-110045, Admeasuring Area 106 Sq.Yds. Owned by : Mrs. Nidhi Soni & Mr. Goldy Soni. Bounded: North: Road 20 feet wide South: Other Property East: Plot No.95 West: 10 Feet Road | 31.01.2020 | 28.08.2020 | Rs. 30,17,043/- plus interest there upon from 31.01.2020 |
| 2. | BORROWER: MR. GOLDY SONI CO-BORROWER: MRS. NIDHI SONI | All the part and parcel of Property consisting of Flat No.F-94, Tarangini Apartment, Third Floor, Front Portion with Roof Terrace Rights, Kharsa No. 87/5/2, Street No.2, Village - Palam, Mahavir Enclave, New Delhi-110045, admeasuring area 125 Sq.Yds. Owned by Mr. Goldy Soni. Bounded: North: Road 30 feet wide South: Other Property East: House No.F-1/95 West: 10 Feet Road & Surya Apartments on Plot No.RZ-F/1/04, Gali No.2 | 31.01.2020 | 28.08.2020 | Rs. 39,88,138/- plus interest there upon from 31.01.2020 |

The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DATE: 28/

